

COVID-19 टीकाकरण का रिकॉर्ड प्राप्त करना



अपने COVID-19 टीकाकरण का रिकॉर्ड कैसे प्राप्त करें

टीका लगवाने के बाद आपके COVID-19 टीकाकरण का प्रमाण आपके **टीकाकरण इतिहास विवरण** पर दर्ज किया जाएगा।

अपनी सभी आवश्यक खुराकें प्राप्त कर लेने के पश्चात, आप भी अपना **COVID-19 डिजिटल प्रमाणपत्र** पा सकते हैं।

आप निम्नलिखित माध्यम से अपने COVID-19 टीकाकरण का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं:

- मेडिकेयर ऑनलाइन खाता
- एक्सप्रेस प्लस मेडिकेयर ऐप
- मेरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड(माई हेल्थ रिकॉर्ड)
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल पहचानकर्ता सेवा(Individual Healthcare Identifiers Service)
- ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर



मेडिकेयर ऑनलाइन खाता

1. अपने माईगव (**myGov**) खाते(my.gov.au) में साइन इन करें और मेडिकेयर चुनें
2. **टीकाकरण इतिहास (Immunisation history)** भाग से, **टीकाकरण इतिहास देखें(View immunisation history)** चुनें
3. अपना नाम चुनें
4. **टीकाकरण इतिहास विवरण(पीडीएफ) देखें (View immunisation history statement(पीडीएफ))** पर क्लिक करें या **COVID-19 डिजिटल प्रमाणपत्र (पीडीएफ) देखें (View COVID-19 digital certificate (PDF))** पर क्लिक करें

एक्सप्रेस प्लस मेडिकेयर ऐप

1. ऐप खोलें और साइन इन करें
2. **सर्विसिस्** भाग से, **टीकाकरण इतिहास** चुनें
3. अपना नाम चुनें
4. **टीकाकरण इतिहास विवरण देखें (पीडीएफ) पर** या **COVID-19 डिजिटल प्रमाणपत्र देखें (पीडीएफ) पर** क्लिक करें।

माई हेल्थ रिकॉर्ड(My Health Record)

आप My Health Record से भी अपने COVID-19 टीकाकरण का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही My Health Record है:

1. अपने **myGov** खाते (my.gov.au) में साइन इन करें और **My Health Record** चुनें
2. अपना My Health Record खोलें
3. अपने **रिकॉर्ड होम** पेज से या अपने **टीकाकरण देखें** पेज से अपने टीकाकरण का प्रमाण प्राप्त करें (**Documents, Immunisations** चुनें)

यदि आपके पास पहले से My Health Record रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपके पास मेडिकेयर कार्ड है:

1. अपने **myGov** खाते (my.gov.au) में साइन इन करें और उसे **My Health Record** से लिंक करें
2. अपनी पहचान सत्यापित करें और My Health Record बनाएँ, अपने My Health Record में टीकाकरण की जानकारी (चिकित्सा संबंधी जानकारी) को शामिल करने के लिए 'हाँ' का चयन करना सुनिश्चित करें।
3. अपना My Health Record खोलें।
4. अपने **रिकॉर्ड होम** पेज से या अपना टीकाकरण देखें पृष्ठ से अपने टीकाकरण का प्रमाण प्राप्त करें

COVID-19 टीकाकरण का रिकॉर्ड प्राप्त करना

व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल पहचानकर्ता सेवा (Individual Healthcare Identifiers service) (यदि आपके पास मेडिकेयर कार्ड नहीं है)

यदि आपके पास मेडिकेयर कार्ड नहीं है और आप अपने टीकाकरण के प्रमाण को ऑनलाइन पाना चाहते हैं, तो आपको एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल पहचानकर्ता (IHI) की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास पहले से IHI नहीं है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

<https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihl>

एक बार आपको पास IHI मिल जाने पर, आप myGov के माध्यम से अपने टीकाकरण के प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं।

1. अपने **myGov** खाते (my.gov.au) में साइन इन करें और **व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल पहचानकर्ता सेवा (Individual Healthcare Identifiers service)** चुनें
2. **सर्विसिस्** भाग से, **टीकाकरण इतिहास (Immunisation History)** चुनें
3. **टीकाकरण इतिहास विवरण देखें (पीडीएफ)** या **COVID-19 डिजिटल प्रमाणपत्र देखें (पीडीएफ)** पर क्लिक करें

ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर

यदि आपको अपने COVID-19 टीके का ऑनलाइन प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो **ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर** को **1800 653 809** पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल करें।

उनसे अपना **टीकाकरण इतिहास विवरण** आपको भेजने के लिए कहें।

डाक से आने में 14 दिन तक लग सकते हैं।


यदि आपको दुभाषिण की आवश्यकता है, तो कृपया **टेलीफोन दुभाषिया सेवा (TIS)** को **131 450** पर कॉल करें।

उपयोगी लिंक्स

अपना टीकाकरण इतिहास विवरण कैसे प्राप्त किया जाए इस बारे में अधिक जानकारी के लिए **नीचे दिए गए क्यूआर(QR) कोड को स्कैन करें**



NSW में COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानने के लिए **नीचे दिए गए क्यूआर(QR) कोड को स्कैन करें**



नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें अपने COVID-19 टीकाकरण का ऑनलाइन प्रमाण प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका ढूँढने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

